

CIN: L15421MP2011PLC027287 GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW

Parvati Sweetners And Power Limited

Registered Office: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal- 462003 (MP), Ph. No. 0755 - 4009254, Email: info@parvatisweetners.com Website: www.parvatisweetners.co.in

PSPL/SE/PC/2023-24

10th February, 2024

ISIN: INE295Z01015

Online filing at www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager
DCS-CRD
BSE Ltd.
Rotunda Building
P.J. Tower, Dalal Street, Fort
Mumbai – 400001

Scrip Code: 541347 Symbol: PARVATI

SUB: SUBMISSION OF PRESS CLIPPING RELATED TO EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2023.

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A(A) and in compliance of Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023 was approved in 06/2023-24 Meeting of Board of Directors held on Friday, 09th February, 2024 at 3:30 P.M. at the Registered Office of the Company Situated at Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal- 462003 (MP).

We herewith enclosed the newspaper advertisement published on 10.02.2024 in English edition and Hindi edition.

mers and

You are requested to kindly take the same on record for your further needful.

Thanking You, Yours Faithfully,

For, Parvati Sweetners And Power Limited

or Parvati Sweetners and Power Ltd.

Director Authorised Signatory

POONAM CHOUKSEY
MANAGING DIRECTOR

DIN: 02110270

Encl. - a/a

Factory: Village Sankhini, Tehsil Bhitarwar, Distt. Gwalior - 475220 (MP) Ph. No. 07524-405005

Nama & Address

Datia Branch: H. No.253/2/9, Patwa Wali Gali, Near Town Hall Datia, Madhya Pradesh - 475 661 Phone No.: 07522 - 233091, E-mail- lob2640@iob.in

DEMAND NOTICE Demand Notice Date: 19/01/2024 Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act

2002 (SARFAES) Act) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Rules) 1. Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Indian Overseas Bank under SARFAESI Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3, issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrowers/ mortgagors/ guarantors listed hereunder (hereinafter referred to as the "said Borrowers"), to repay the amounts mentioned in the Notice, within 60 days from the date of receipt of Notice, as per details given below

The said Notices have not been duly acknowledged by the borrowers/mortgagors/guarantors. Hence the Bank by way of abundant caution is effecting this publication of the demand notice. The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrowers/ mortgagors/ guarantors as per the said Act. Copies of the said Notices are available with the undersigned and the said Borrowers/ mortgagors / guarantors, may, if they so desire, collect the said copies from the undersigned on any working day during normal office hours.

3. Against the above background, Notice is hereby given, once again, to said Borrowers/ mortgagors/ guarantors to pay to

Indian Overseas Bank, within 60 days from the date of publication of this Notice, the amounts indicated/payable as given below under the loan & other documents. As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to Indian Overseas Bank by the respective parties as below.

Nature of Facility Total dues as

of Borrowers & Guarantor	Amount of Limit		Description of Secured Assets
Borrower: Mr. Pradeep Kumar Gupta S/o Roop Kishore Gupta Mrs. Jyoti Gupta W/o Pradeep Kumar Gupta Permanent/Communication/ Office Address: Araji No.487/2, 488, 489, Ward No.31 Mahendrapuri Colony, Mauja- Nayagaon Tehsil & District- Jhansi U.P 284002 Also at: 1365/1, Ramjankipuram, Mehandi Bagh Jhansi, U.P 284002	Housing Loan ₹ 15,00,000/- Rate of interest (Including overdue interest) & rests 11.55%	other charges	Residential Property situated at Araji no.487/2, 488, 489, Ward No.31, Mauja- Nayagaon, Tehsil and District- Jhansi, Uttar Pradesh, admeasuring 55.76 Sq.mtr. i.e. 600 Sq.ft. (15' X 40') in the name of Mrs. Jyoti Gupta W/o. Pradeep Kumar Gupta Boundaries: East: 6.10 meter Rasta, West: Plot of Other, North: House of Ram Asrey Gupta, South: Plot of Smt. Neelam Tripathi The above said property as set out in the Sale Deed dated 28.01.2019 registered before SRO Jhansi on 02.02.2019 in Bahi No.1, Zild No.7388, Page No.1 to 24, Serial No.810 and in the Titamma (Rectification Deed) registered before SRO Jhansi on 14.02.2019 in Bahi No.1, Zild No.7425, Page No.337 to 358, Serial No.1412 along with all other Appurtenances.

payable with further interest at contractual rates/rests as agreed from the date mentioned above till date of payment. 4. If the said borrowers/ mortgagors / guarantors fail to make payment to Indian Overseas Bank as aforesaid, then Indian Overseas Bank shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the SARFAESI Act and Rules entirely

at the risks, costs and consequences of the said borrowers/ mortgagors/ guarantors.

5. Further, the attention of borrowers/ mortgagors / guarantors is invited to provisions of Sub-section(8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets

6. The said Borrowers/ mortgagors / guarantors are prohibited under the SARFAESI Act from transferring the secured assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of Indian Overseas Bank, Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules shall be liable for imprisonment and/ or fine as given under Section 29 of the Act.

Date : 10-02-2024 Authorised Officer, Indian Overseas Bank

We understand your world

HDFC BANK LIMITED HDFC Bank Ltd. Plot No. 45, First Floor, SP Tower, Near SP office, City Centre, Gwalior, MP, PIN 474011, Phone : 0751-4000239

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 9 (1) / Rule 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor (s)concerned that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical Possession (as Detailed below) of which has been taken by the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and 'Whatever there is" on (shown below in the respective column) for recovery of the amount (shown below in the respective column) due to the HDFC Bank Ltd. Secured Creditor from respective borrower(s) and guarantor(s) shown below. The reserve price and the earnest money deposit of the subject Property are as shown below in the respective column.

Sr. No.			Location & Details of Immovable Properties	Reserve Price Earnest Money Deposit	Outstanding dues as per Demand Notice (in Rs.)	Date of Inspection	Last date and time for submission of bids	Date and Time of E-Auction
1	1) M/s Krishna Mawa Bhandar Through Proprietor Mr. Sanjeev Sharma S/o Mr. Ram Padam Sharma 2) Mr. Sanjeev Sharma S/o Mr. Ram Padam Sharma 3) Mrs. Anjali Sharma D/o Mr. Mahesh Parashar, LAN# 82116134	08/08/2018 28/02/2020	Shop No. B-4 Jagdamba Complex, Bairagpura, Lashkar, Gwalior, Which is a Part of Municipal House No. 420 after that 26/2, After that 43/429, Admeasuring 129.3 Sq. Ft. Boundaries: East: Shop of Other, West: 6 Ft. Wide Common Passage, North: Common Passage and Shop No. B-3, South: Common Passage and Shop No. B-5	₹4,38,217/- ₹43,822/-	Rs. 13,75,956/- as on 09/08/2018	12.02.2024 Onwards BETWEEN 12.00 PM & 03.00 PM As per the availability of Officers.	28.02.2024	29.02.2024 at 11.00 AM to 12.00 Noon with unlimited extension of 5 Mins. for every Successful Bid
2	1) M/s Rai Enterprises, Through Proprietor Mr. Santosh Rai S/o Mr. Nageena Rai. 2) Mr. Rahul Rai s/o Mr. Santosh Rai LAN# 01928020001481	24/09/2020 15/12/2022	Residential property "Flat No. T-1, At Third Floor, Plot No.13, Muni House No.30/1421, Ward No.30, Part of Survey No. 668, 669, 695, 697, 700, 701,706,707, 708, 709 Gram Gauspura, Saket Nagar Gwalior MP. The property is owned by Mr. Santosh Rai S/o Shri Nageena Rai. Boundaries: - East: Colony Road, West: Common Passage & Flat No. T-2, North: House of Palaiya Ji, South: House of Mishra Ji	₹ 17,14,608/- ₹ 1,71,461/-	Rs. 25,56,235.00 as on 03/11/2020	12.02.2024 Onwards BETWEEN 12.00 PM & 03.00 PM As per the availability of Officers.	28.02.2024	29.02.2024 at 11.00 AM to 12.00 Noon with unlimited extension of 5 Mins. for every Successful Bid
3	Through Proprietor Mrs. Ratna Gupta w/o Mr. Gauri Shankar Gupta. 2) Mr. Vijay Kumar Gupta S/o Mr. Madan Lal Gupta LAN# 50200002643544 1) M/s Chirag Industries Through Proprietor Mr. Vijay Kumar	24/07/2018 & 03/12/2022 16/02/2021 &	Residential Cum Commercial property situated at Village Bujurg, Jhansi Road, Dabra, Gwalior 475110, bearing a part of Survey No. 333, 334/1/1, 334/2/1, 334/3/1, 333/4 Patwari Halka No. 30, admeasuring 7650 sq. Ft. Boundaries:- East: Land of Anil Gupta West: Land of Manoj Gupta, North: Road, South: Land of Anil Gupta Residential cum Commercial property situated at, Village Bujurg Dabra, Gwalior, Bearing a part of Survey No. 333, 334/1/1, 334/2/1,334/3/1, 333/4 Halka No. 30.	₹76,18,050/- ₹7,61,805/-	Rs. 1,19,60,543.86 as on 03/12/2022 And Rs. 1,30,92,847.23 as on	12.02.2024 Onwards BETWEEN 12.00 PM & 03.00 PM As per the availability	28.02.2024	29.02.2024 at 11.00 AM to 12.00 Noon with unlimited extension of 5 Mins. for
	Gupta s/o Mr. Madan Lal Gupta 2) Mrs. Ratna Gupta W/o Mr. Gauri Shankar Gupta LAN# 50200002257381	03/06/2023	Admeasuring 900 Sq. ft., The property is owned by Mr. Vijay Kumar Gupta s/o Mr. Madan Lal Gupta. Boundaries:- East: Open Land of Vijay Gupta, West: Open Land of Manoj Gupta, North: 20 Ft. wide Road to Village Sausa Chak, South: Open Land of Kutivawale		03/12/2022	of Officers.		every Successful Bid

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the Secured Creditor's Website i.e. https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices This Notice should also be considered as 15/30 Days Notice to the Borrowers under Rule 9(1) / Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002

Date: 10.02.2024, Place: Gwalior Authorised Officer - HDFC Bank Ltd.

KIFS HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office: 6th Floor, KIFS Corporate House, Beside Hotel Planet Landmark, Near Ashok Vatika, BRTS, ISKON - Ambli Road, Bodakdev, Ambli, Ahmedabad, Gujarat - 380054. Corporate Office: C-902, Lotus Park, Graham Firth Compound, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400063, Maharashtra, India, Ph.No.: +91 22 61796400, E-mail: contact@kifshousing.com | Website: www.kifshousing.com

CIN: U65922GJ2015PLC085079 RBI COR: DOR-00145 NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT

OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)
In respect of loans availed by below mentioned borrowers/guarantors through KIFS HOUSING FINANCE LIMITED, which have become NPA with pelow mentioned balance outstanding on dates mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Asset Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Spec Post/ Courier with acknowledge due to you which has been returned undelivered / acknowledgment not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on one of you as per Sec. 13(4) of the Act in case of your failure to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act and while publishing the possession notice auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank/Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder

No.	Application No/LAN	& Date of NPA	Outstanding	betail of decured Assets.
1	Jabalpur	1. Mrs. Mamta Devi (Applicant)	Demand Notice	NB No 664, PH No 60, KH No 285/6 Adhartal Road Landmark
ll		2. Mr. Yogesh Kumar Mishra	Date	Mouja Maharajpur Maharajpur Jabalpur Jabalpur Madhya
	LNHLJBL	(Co- Applicant)	February 01, 2024	Pradesh 482004. As Per Sale Deed: East: Lakshmi Patel House
ll	002937	NPA: December 09,2023	O/s. Rs.12,65,175/-	West: Side Road, North: Devendra Gudhe's Property, South:
ll			0/0.110.12,00,170/-	Rajendra Mishra's House As per Site: East: Lakshmi Patel
ll				House, West: Side Road, North: Devendra Gudhe's Property,
				South: Rajendra Mishra's House
2	Ratlam	1. Mr.Vijay Singh Rajput (Applicant)	Demand Notice	Survey No 75/1 Shree Ram Nagar Landmark Ratlam Ratlam
ll		2. Mr. Ajay Thakur (Co- Applicant)	Date	Ratlam Ratlam Madhya Pradesh 457001. As Per Sale Deed: East:
	LNHLRTM	3. Mr. Kamal Singh (Co-Applicant)	February 01, 2024	House of Mr.Rajesh Sharma built on Plot No. 129, West: House of
	005820	NPA: December 09,2023	O/s. Rs. 5,77,438/-	Mr.Bhanwarlal, North: Neighbourhood of Plot No.115, South:
ll				Road As per Site: East: House of Suresh Tak, West: House at
╙				Remaining land of this plot, North: Plot No.115, South: Road
3	UJJAIN	1. Mr. Atmaram Ji Sen (Applicant)	Demand Notice	P.H. 28, House No.21, Chakiya, Ram Mandir Chakiya, Makdone,
	/ 6086 /	2. Mr. Sajjan Bai Sen	Date	Ujjain Tarana MP, Nujjain Madhya Pradesh 456668.
	UNHLUJN 010041	(Co- Applicant) NPA: December 09.2023	February 01, 2024	As Per Sale Deed : East: Siddhaji's house, West: Horenarayan's
ll .	010041	NPA: December 09,2023	O/s. Rs. 5,23,795/-	house, North: Bherulal's house, South: Road As per Site: East: House of Mr.Siddhu, West: House of Mr. Harinarayan, North:
ll .				House of Mr. Bherulal, South : Road
4	UJJAIN	1. Mr. Babu Lal (Applicant)	Demand Notice	36 1 NANA 36 Old PHN 48 New PHN 51 NANANr Mandir Karedi
~		2. Mr. Mankunwar Bai	Date	Makdone Makdone Ujjain Madhya Pradesh India 456770. As Per
	LNHLUJN	(Co- Borrower)	February 01, 2024	Sale Deed: East: Self Land and Land of Mr. Gangaram, West:
	008480	NPA: January 08.2024		Govt Land, North: Road, South: Land Of Mr.Ramesh As per
			O/s. Rs. 3,51,057/-	Site: East: Self Land and Land of Mr. Gangaram, West: Govt
				Land, North: Road, South: Land of Mr. Ramesh
5	Jhabua	1. Mr. Vijay Bahadur Singh	Demand Notice	Plot no 237 PH No. 41/74 Ward No. 12 Gram Jhaknawada
	/ 1057831 /	(Applicant)	Date	Tehsil Petlawad Distt. Jhabua Jhabua Jhabua MADHYA
II .	LNHLJHA	2. Mrs. Mamta Vijay Bahadur	February 01, 2024	PRADESH India 457775. As Per Sale Deed: East: Building &
	007547	(Co-Borrower)	O/s. Rs. 5.70.067/-	common road of ASI co, West: Plot of Mahendra Singh S/o
		NPA: December 09,2023		Jitendra Singh Rathore, North: Plot of Bhupendra Singh S/o
				Narvar Singh Rathore, South: Land of Self & family Members As
				per Site: East: Building & common road of ASI co, West: Plot of
				Mahendra Singh S/o Jitendra Singh Rathore, North: Plot of
II .				Bhupendra Singh S/o Narvar Singh Rathore, South: Land of Self & family Members
L				
The	e above mentic	oned Borrowers/Guarantors are advised	1 (1) To collect the original	inal notice from the undersigned for more and complete details and

(2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act. Date: 10.02.2024 | Place: MADHYA PRADESH Sd/-, Authorised Officer, KIFS Housing Finance Ltd.

U GRO U GRO CAPITAL LIMITED 4th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Road, Kurla, Mumbai 400070

DEMAND NOTICE and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 ("The Act") and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("The Rules")

The undersigned being the authorised officer of UGRO Capital Limited under the Act and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the Act, read with the Rule 3 ssued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that the borrower(s) are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of the demand notice is being effected by affixation and publication as per the Rules. The ontents of the demand notice(s) are extracted herein below:

Name of the Borrower(s) & LAN	Demand Notice Date and Amount						
1. Maa Ambey Traders 2. Kishore Chouhan	Demand Notice Date: 10-01-2024						
3. Maya Chouhan	Amount: Rs. 87,51,193/-						
LAN: HCFINDSEC00001047024	as on 08-01-2024						
Description of Secured Asset(s)							

Property 1: "All that piece and parcel of immovable property bearing House/Plot No. 48 & 49, situated at survey No. 525, Rishi Palace Colony, near Gurushankar Nagar, Sirpur, Tehsil & District Indore(M.P). The admeasuring area is 750+750 1500 sg. ft. (139.40 sg. mtr.). Butted and bounded on the East by Road, on the West by Other property, on the North by Plot No. 50, on the South by Plot No. 47." Property 2: "All that piece and parcel of immovable property bearing Plot No. 681 B. Survey No. 223 situated at Vidur Nagar Colony, Village Ahirkhedi, Tehsil & District Indore (M.P). The admeasuring area is 1500 sq. ft. (139.40 sq. mtr.) Butted and bounded on the East by Plot No. 682, on the West by Plot No. 681-A, on the North by Plot No. 686, on the South by Open road."

The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and pay the demand amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, late payment penalty, bounce charges, cost and expenses etc. til the date of realization of the payment. The borrower(s) may note that UGRO capital Limited and Poonawalla Fincorp Limited is a Secured Creditor and the loan facility availed by the borrower(s) is a secured debt against the immovable property(ies) being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s) with UGRO Capital Limited. In the event, the borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stinulated time. UGRO Capital Limited shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the Secured Asset(s) including but no limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Ac and the Bules thereunder in order to realize the dues in the loan account of the borrower(s). LIGBO Capital Limited is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the Secured Asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the sale of the Secured Asset(s), LIGR(Capital Limited also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues in case the value of the Secured Asset(s) is insufficient to cover the dues payable by the borrower(s) to UGRO Capital Limited. This remedy is in addition and independent of all othe remedies available to UGRO Capital Limited under any other law. The attention of the borrower(s is invited to Section 13(8) of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Asset(s and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing or dealing with the Secured Asset(s) or transferring the same by way of sale, lease o otherwise (other than in ordinary course of business) any of the Secured Asset(s) without prior itten consent from UGRO Capital Limited and non-compliance of the above is an offen punishable under Section 29 of the Act. The copy of the demand notice(s) is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, collect the same from the undersigned. Place: Indore SD/-, Ramlal Gupta (Authorised Officer) For U GRO Capital Limited (authorised.officer@ugrocapital.com) Date: 10.02.2024

DBL INFRA ASSETS PRIVATE LIMITED

Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months period ended 31 December, 2023 [Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

Detail of Secured Assets:

			Stan	dalone			Cons	olidated	
S. No.	Particulars	For Quarter ended / As at	For Period ended / As at	For Quarter ended / As at	For the Year ended / As at	For Quarter ended / As at	For Period ended / As at	For Quarter ended / As at	For the Year ended / As at
NO.		31 Dec 2023	31 Dec 2023	31 Dec 2022	31 March 2023	31 Dec 2023	31 Dec 2023	31 Dec 2022	31 March 202
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income From Operations (Net)	4,957.43	6,879.50	42.03	1,163.06	4,957.43	6,879.50	1,501.96	5,707.5
2.	Net Profit / (Loss) For The Period (Before Tax, Exceptional And / Or Extraordinary Items #)	(2,295.30)	(6,003.65)	(2,455.79)	(9,648.49)	(2,295.30)	(6,003.65)	(1,667.51)	(10,125.8
3.	Net Profit / (Loss) For The Period Before Tax (After Exceptional And / Or Extraordinary Items #)	142.43	(3,408.76)	(2,048.31)	(6,060.61)	1,255.73	(1,644.21)	(979.42)	1,391.8
4.	Net Profit / (Loss) For The Period After Tax (After Exceptional And / Or Extraordinary Items #)	54.04	(3,497.15)	(2,048.31)	(6,059.48)	1,167.34	(1,733.03)	(1,013.51)	1,303.0
5.	Total Comprehensive Income For The Period [Comprising Profit / (Loss) For The Period (After Tax) And Other Comprehensive Income (After Tax)]	997.43	(2,552.35)	(2,048.31)	(3,589.10)	2,383.41	(1,327.32)	(4,337.01)	(1,956.8
6.	Paid Up Equity Share Capital	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	(11,742.34)	(11,742.34)	(12,398.92)	(9,189.56)	(20,654.80)	(20,654.80)	(27,626.61)	(20,774.3
8.	Securities Premium Account	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Net Worth	(11,542.34)	(11,542.34)	(12,198.92)	(8,989.56)	(20,454.80)	(20,454.80)	(27,426.61)	(20,574.
	Paid Up Debt Capital / Outstanding Debt	67,569.95	67,569.95	67,571.07	70,077.00	67,569.95	67,569.95	95,515.86	70,077.
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12.	Debt Equity Ratio	(5.85)	(5.85)	(5.54)	(7.80)	(3.30)	(3.30)	(3.48)	(3.4
13.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- Each) (For Continuing And Discontinued Operations)								
	1. Basic:	2.70	(174.88)	(102.42)	(302.97)	72.00	(113.61)	(216.85)	(221.3
	2. Diluted:	2.70	(174.88)	(102.42)	(302.97)	72.00	(113.61)	(216.85)	(221.3
14.	Capital Redemption Reserve	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Debt Service Coverage Ratio	0.01	0.03	-	-	0.01	0.03	-	-
17.	Interest Service Coverage Ratio	0.16	0.25	-	-	0.16	0.25	-	-

Place: Bhopal

Date: 09 February, 2024

1. The above unaudited standalone financial results for the quarter and nine months period ended December 31, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit committee and subsequently approved by the board of directors at their respective meetings held on February 09, 2024.

2. The unaudited Standalone Financial Results have been prepared in accordance with IND AS, notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 52 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015, as amended.

3. The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months period ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the company (www.dbiapl.com). 4. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (BSE) and can be accessed on the URL

(www.bseindia.com). 6. The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote

For DBL Infra Assets Private Limited

Dilip Suryavanshi Director (DIN:00039944)

PARVATI SWEETNERS AND POWER LIMITED CIN: L15421MP2011PLC027287

GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW

Reg. Off.: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal- 462003 (MP) Website: www.parvatisweetners.co.in. Email: info@parvatisweetners.com. Tel.: 0755-4009254

Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended on 31st December, 202: (₹ in Lakhs) (Except EPS Corresponding Quarter Year to date Figures 3 months ende ending for current period **PARTICULARS** 31th Decembe 31st Decembe ended 31st December, 2023 2022 2023 Un-audited Un-audited Un-audited Total income from operations (net) 981.82 4396.85 1080.26 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and or Extraordinary items) 22.27 41.74 334.67 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 22.27 41.74 334.67 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional 29.87 65.53 323.21 and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 29.87 65.53 323.21 Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 5 each) 7457.19 7457.19 4509.00 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance sheet of previous year) Earnings Per Share (of Rs.5/- each) (for continuing and discontinued operations)-1. Basic: 0.02 0.04 0.36

2. Diluted: 0.02 0.04 Note: The above is an extract of the detailed Format of Quarterly/Nine monthly Financial Results for the quarter/nine months ended 31st December, 2023 filed with Stock Exchange under Reg. 33 of SEBI (LODR) Regulations 2015. The Full Format of Quarterly Financial Results are available on the BSE website (www.bseindia.com) and on the Company's website www.parvatisweetners.co.in) On and behalf of Board

POONAM CHOUKSEY (Managing Director),

0.36

Place: Bhopal Date: 9th February, 2024 DIN: 02110270

HDFC BANK LTD.

Senapthi Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai Department for Special Operation

THE HOPE BANK We understand your world

POSSESSION NOTICE

Whereas. The Undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Limited, under the Secularization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of power conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 01st August 2023, calling upon the below mentioned borrowers & guarantors to repay the amount mentioned therein within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, guarantors and public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 on this 05th day of February, 2024.

Details of the Borrower, Guarantors and immovable Property etc.

1		, -	
	Name of the Borrower		Amount mentioned in the Notice in Rs.*
I	M/s. Shanti Cold Storage and Ice Factory, 2. Mr. Kundan Kumar Saw, M/s. Roshan Traders, 4. Mr. Roshan Kumar Saw, 5. Mrs. Gayatri Devi	01.08.2023	Rs. 9,52,35,634.36/-

Property Mortgaged: 1.Mouja Ajaniya, PHL. 22, NB. 03, Kh No. 68/8, Tehsil & District Chhindwara, Ward No. 16, RIC Chhindwara, Ring Road, Chhindwara M.P. 480001, Admeasuring Area 3.004 Hectate, Owned by Roshan Saw Bounded as Under: North: Land of Rajkumar Choudhari, South: Land of Mohanvati, East: Land of Seller, West: Land of Rajkumar chore

2. Mouja Ajaniya, PHL. 22, NB. 03, Kh No. 75/4, Tehsil & District Chhindwara, Ward No. 16, RIC Chhindwara, Ring Road, Chhindwara M.P. 480001, Admeasuring Area 0.116 Hectate, Owned by Mr. Roshan Saw Bounded as Under: North: Land of Gayatri Devi & Roshan after nallah, South: Land of Seller, East: Bypass Road, West: Land of Roshan

3. Mouja Ajaniya, PHL. 22, NB. 03, Kh No. 68/6, Tehsil & District Chhindwara, Ward No. 16, RIC Chhindwara, Ring

Road, Chhindwara M.P. 480001, Admeasuring Area 0.591 Hectate, Owned by Mrs. Gayatri Devi, Bounded as Under: North: Land of Omesh Raghuwanshi, South: Land of Meena Bai, East: Land of Vaijanti Bai, West: Land of Rajkumar chore 4. Mouja Ajaniya, PHL. 22, NB. 03, Kh No. 68/9, Tehsil & District Chhindwara, Ward No. 16, RIC Chhindwara, Ring Road, Chhindwara M.P. 480001, Admeasuring Area 0.607 Hectate, Owned by Mrs. Gayatri Devi, Bounded as Under North: Land of Rajkumar Choudhari, South: Land of Mohanvati, East: Chhindwara Ring Road, West: Land of Seller

5. Mouza Seoni Pranmoti, Khasra No. 137/9, Tehsil & Municipal Ward No. 16, Mahatma Gandhi Ward, Seoni Road B.No. 573, PH 20, RIC Chhindwara Near Chopal Sagar, M.P., Owned by Kundan Kumar Saw, Admeasuring Area 0.013 Hectate, Bounded as Under: North: Land of Kundan Saw, South: Seoni Chhindwara Road, East: Land of Sheetal Kumar, West: Land of Sheetal Kumar

6. Mouza Seoni Pranmoti, Khhasra No. 137/4/2, 137/10/2 Tehsil & Municipal Ward No. 16, Mahatma Gandhi Ward, Seoni Road NB 573, PH 20, RIC Chhindwara Near Chopal Sagar, M.P., Owned by Mr. Kundan Kumar Saw. Total Admeasuring Area 0.024 Hectare, Bounded as Under for khasra No. 137/10/2,: North: Land of Kundan Saw, South

Seoni Chhindwara Road, East: Land of Kundan Saw, West: Land of Parvati Bai. Bounded as Under for khasra No. 137/4/2,: North: Land of Kundan Saw, South: Seoni Chhindwara Road, East: Land of Kundan Saw, West: Land of Kundan Saw.

7. Mouza Seoni Pranmoti, Tehsil & Municipal Ward No. 16, Khasra No. 124/2, Mahatma Gandhi Ward, Seoni Road, B.No.573, PH 23/20, RIC Chhindwara Near Chopal Sagar, Tehsil & District Chhindwara M.P., Owned by Mr. Kundan Kumar Saw. Total Admeasuring Area 0.352 Hectate, Bounded as Under:- North: Land of Gayatri Devi, South: Land of Sheetal Goud, East: Land of Sukhlal, West: Nallah.

8. Mouza Seoni Pranmoti, Tehsil & Municipal Ward No. 16, Khasra No. 124/3, Mahatma Gandhi Ward, Seoni Road, BN 573, PH 23/20, RIC Chhindwara Near Chopal Sagar, Tehsil & District Chhindwara M.P., Owned by Mr. Kundan Kumar Saw. Total Admeasuring Area 0.352 Hectate, Bounded as Under:- North: Road, South: Land of Buyer, East: Land of Sukhlal, West: Nallah.

'Subsequent interest till date is also due.

The immoveable properties mentioned above serial nos. 1 to 4 are also been created cross collateral for the credit facilitie granted separately to M/s. R R Agro Industries & M/s. Roshan Traders respectively.

The borrower & guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the HDFC Bank Ltd. for an amount of Rs.9,52,35,634.36/ (Rupees Nine Crore Fifty Two Lakhs Thirty Five Thousand Six Hundred Thirty Four and Thirty Six paisa Only) due as on

30.06.2023 and interest thereon from 01.07.2023. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redee

Date: 05-02-2024 For HDFC Bank Limited Place: Chhindwara Authorised Officer

N THE COURT OF V ADDITIONAL JUDGE TO I CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION, BETUL

esiding officer : श्री अरूण सिंह अलाव आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेत (RCS A/0000229/2022) दिनेश.....वादी VS

...प्रतिवादी Process Id-/202 पेशी दिनांक 11.03.202

मिरिती—
) चानिकेशोर पिता उनराव पाटिल छत्र छः वर्ष पता आदिन
त्राति छात्रावास के पीछे साजापुर राइसील साजापुर पुलिस
त्राना साजापुर जिल्ला साजापुर नाइसील साजापुर पुलिस
त्राना साजापुर जिल्ला साजापुर नाइय प्रदेश (३) सुनीता पति
प्रान्धसा झरवरे छत्र छ० वर्ष पता देवेन्द्र नगर रायपुर राइसील
जेला चानपुर एनीसगढ़ (३) लता पति नुनीलाल ज्ञुलकर छत्र
छः वर्ष पता लतीत नगर भोपाल राइसील भोपाल पुलिस माना
भोपाल जिला भोपाल न्यव्यवेश (०) सुर्चल पिता स्वर्णीत
वर्षाल क्षांता भोपाल न्यव्यवेश (०) सुर्चल पिता स्वर्णीत
वर्षिक पत्र प्राचल स्वर्णील प्रदेश सामा
विदेश पानचास पंडाये छत्र ७। वर्ष पता खळला रोड बजाज
बेदिका के पान पुसावल राइसील पुलिस माना जिला चुसावल
हाराण्ड ।

ा जाएक कथा या सांके में है पेश करें जिन प का प्रतिकारा या नृज्याई का याथा या प्रतिवादा आधारित हो वरित आप क्या किसी स्टालिय पत्ता है का आपके कथा तिक में हो अपनी प्रतिकारा या नृज्या के याथे या प्रतिवादी से में में माझ के कप में निनेष क्यो है तो ऐसी होने वर्षी विशिवत कथान के साथ उपलब्ध की समर्थन में साहय के रूप में गुगर करता व जा जाने वाली दस्तार्थक की लिखित कबन के साह्य उपलब्ध की जाने वाली सूची में मंत्रिक करने आपने पृष्टित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अविधे में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो बाद की एक प्रवीय सुनवाई कर उसका निपटार आपकी अनुपस्थित में किया जीना। साब हो असे सुचिव आपकी अनुपस्थिति में किया जीना। साब हो असे सुचिव आपकी अनुपस्थिति में किया जीना। साब हो असे सी सुचिव आपकी अनुपरिचति में किया जायेगा। साथ हो यह भी स्तुषद किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करायें यह आज तारीख 30 जनवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर से औ ाय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

अरुण सिंह अलावा पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र. ज्या ध्यान दें : 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथ्य को न्यायालय अवका पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

Municipal Council Sillod नगरपरिषद सिल्लोड जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर

जा.क्र./नपसि/पा.पु./निसू-12/2023-24/248 दिनांक: 09/02/2024 E-Tender Notice - 12 Year 2023-24

Sillod Water Supply Scheme, Tq.Sillod, Dist. Chhatrapati Sambhajinagar (Second Call) Under MSJNMA in the State of Maharashtra, of Estimated Cost Rs.50,21,71,602/-. The E-Tender details are available on www.mahatenders.gov.in.

All Relevant dates will be as per the Tender published in Web portal www.mahatenders.gov.in

Date : 10/02/2024 Sd/-Sd/-Sd/-Chief Officer Municipal Engineer President Municipal Council Sillod Municipal Council Sillod Municipal Council Sillod

OSBI

डेटा वेयरहाउस विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी सेन्टर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614

शुद्धिपत्र-4

डेटा लेक और डेटा वेयरहाउस के लिए एकीकृत समाधान की खरीद के लिए रुचि की अभिव्यित (ईओआई) आमंत्रित करने के लिए नोटिस सं.: SBI/GITC/Data Warehouse/2023/ 2024/48 दिनांक: 08.12.2023 के संदर्भ में बैंक ने 09.02.2024 को एक शुद्धिपत्र-4 जारी किया है. विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया https://bank.sbi पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज' पर एवं ई-प्रोक्योरमेंट एजेन्सी पोर्टल https://etender.sbi/SBI/ पर विज़िट करें.

स्थान: नवी मुंबई दिनांक: 10.02.2024

कब्जा सूचना

मांग सूचना दिनांकित

सांकेतिक कब्जा तिथि

ऋण खाता संख्या

कुल बकाया राशि

कर्जदार(रॉ) तथा सह–कर्जदार(रॉ) का नाम

: खुराई, गडरवारा, भोपाल, पाल, नरसिंहपुर

डीसीबी बैंक

उप महाप्रबंधक

(डेटा वेयरहाउस विभाग)

घोहस्ताक्षरी ने डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रति॰ और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (२००२ का ५४) के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २०० हे नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना नीर्च र्णित तिथियों को जारी की थी. जिसमें कर्जदारों (कर्जदारों तथा सह—कर्जदारों) से सचना में वर्णित राष्ट्रि जेसका विवरण यहां नीचे तालिका में दिया गया है, का भुगतान उस पर आगे व्याज के साध, उक्त सूच की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित नियमावली 2002 की धारा 14(1) र नाथ पठित नियम 8 के साथ भी पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रद राक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे वर्णित तिथि को ले लिया है। कर्जदार सह-कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतददारा सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति का वर्ण

के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु	सावधान किया जाता है तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार					
	वर्णितानुसार बकाया राशि अदा करने के बाद ही किया जा सकता है।					
कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।						
	र आकृष्ट किया जाता है।					
1)	12 11 222					
मांग सूचना दिनांकित	13-11-2023					
कर्जदार(रों) तथा सह–कर्जदार(रों) का नाम	श्री इसराइल रैन और सुश्री तहमीना रैन					
सांकेतिक कब्जा तिथि	07-02-2024					
ऋण खाता संख्या	DBLAKHU00554610					
कुल बकाया राशि	रू. 5,59,741 / — (रूपए पांच लाख उनसठ हजार सात सी इकतालीस मात्र) 13—11—2023 तकश					
अचल सम्पत्ति का वर्णन	नगरपालिका खुराई की सीमांतर्गत स्थित सम्पत्ति, सुमाष बार्ड-खुराई, पटवारी हलका नंबर 25, तहसील-खुराई, जिला – सागर, गव्य प्रदेश, नजूल शीट नंबर 17–सी, लॉट नंबर 109, 23 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल (प्रतिमृत आस्तिया)"					
2)						
मांग सूचना दिनांकित	07-11-2023					
कर्जदार(रॉ) तथा सह–कर्जदार(रॉ) का नाम	किशोरी सिंह राजपूत और दीपा राजपूत					
सांकेतिक कब्जा तिथि	05-02-2024					
ऋण खाता संख्या	DBLAGAW00439573					
कुल बकाया राशि	रू. 6,39,009/— (रूपए छह लाख उत्तालीस हजार नौ मात्र) 07—11—2023 तक					
अचल सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : शूमि स्थित मौजा-विराखुर्द, एन.शी. 147, पी.सी. नंबर –14/124, तह-गडरवारा, जिला – नरसिंहपुर, (मध्य प्रदेश), सर्वे नंबर 215/2, 217/2, क्षेत्रफल परिमाप 960 वर्ग फीट (डायवर्टिंड एरिया) (प्रतिभूत आस्तिया)					
3)						
मांग सूचना दिनांकित	30-06-2023					
कर्जदार(रॉ) तथा सह—कर्जदार(रॉ) का नाम	मोहम्मद शाहिद शीख और अंजुम खान					
सांकेतिक कब्जा तिथि	05-02-2024					
ऋण खाता संख्या	DAHLBHO00501964					
कुल बकाया राशि	रू 22,30,018.27 /— (रूपए बाईस लाख तीस हजार अठारह तथा पैसे सत्ताईस मात्र) 29—06—2023 तक					
अधल सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति फ्लैट नंबर टी-06, तृतीय तल, आसमा कॉम्प्लेक्स नामक बिल्डिंग में, जो काजी केम्प बेरिसचा रोड, बोपाल में प्लॉट नंबर 05 और प्लॉट नंबर 11, 12, 13 के बाग पर खित है, परिमाप 700 वर्ग फीट एवं निर्मित क्षेत्रफल 575 वर्ग फीट (प्रतिमृत आस्तियां)"					
4)						
मांग सूचना दिनांकित	15-11-2023					
कर्जदार(रॉ) तथा सह–कर्जदार(रॉ) का नाम	श्री नीतेश जैन, सुश्री जीवन बाई जैन, मैसर्स मणि भद्र राजपूती वस्त्रालय, सुश्री पंकिता जैन और श्री केशरीमल जैन					
सांकेतिक कब्जा तिथि	06-02-2024					
ऋण खाता संख्या	DBLAPAB00537246"					
कुल बकाया राशि	रू. 44,76,068/— (रूपए चौवालीस लाख छहत्तर हजार अङ्गसठ मात्र) 15—11—2023 तक					
अचल सम्पत्ति का वर्णन	मकान नंबर 13 विवेकानंद नगर आगर मालवा पाल 465441 मध्य प्रदेश एलेंट एरिया 1702 वर्ग फीट निर्मित					
5)	बेत्रफल (प्रतिभूत आस्तिया)"					

13-11-2023

सुश्री संजू लता नोरिया

DMBUGAW00408529

नोरिया, श्री हल्के प्रसाद नोरिया

वास्ते डीसीबी बैंक लिमिटे

रू. 2,92,281.78/— (रूपए दो लाख बानवे हजार दो सौ इक्यासी तथा पैसे अठहत्तर मात्र) 13—11—2023 तक

सम्पत्ति मौजा—राजीव वार्ड, निकट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गडरवारा, एन.बी. 119, पी.सी. नंबर —99/18/1, तह.—गडरवारा जिला — नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) (प्रतिभूत आस्तिया)"

P muthoot मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

प्रोकृत कार्यालय : टीसी नं. 14/2074-7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन मार्ग, तिरुवनंथपुरम-६९५ ०३४ निगमित कार्यालय : 12/ए ०१, १३वां तल, पारिणी क्रेसेंजो, भूखंड संख्या सी३८ एवं सी३९, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जी—ब्लॉक (पूर्व), मुंबई—400051, ईमेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की घारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निमांण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मुख्ट हारुसिंग काइनेंस कंपनी लि. ("एमएचएकसीएल के प्रचिक्त अधिकारी हैं और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की चारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिक् अधिकारी ने उक्त अधिनियम की घारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखत ऋणकर्ता(ओं), सह-ऋणकर्ता(ओं), गारंटर(रें) को संबंधित सूचनाओं के निर्गत हो तथा आपको सुचना प्राप्त करवाने की वैकटिपक सेवा प्रदान करने के रूप में एवं उसके माध्यम से निम्न वर्णितानुसार सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों की समयाविध में अद्यत लागत एवं शुल्कों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके कंपनी के प्रति शेष अपने भुगतान—दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करने को कहा गया था। ऋण के नियत प्रतिभुगर के लिए प्रतिभृति के रूप में निम्नलिखित प्रतिभृत परिसंपति(याँ) को उन्त ऋणकर्ता(ओं), सह-ऋणकर्ता(ओं), गारंटर(राँ) द्वारा क्रमशः एमएचएकसीएल के पास बंधककृत रखा गया है

	एलएएन /ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता / गारंटर का नाम	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	कुल बकाया चरि
	ऋष्ण खाता सं. MHFLPNCBHO000005006123 1. शुमम ओझा, 2. बलवान ओझा, 3. आशा उपनाम आशा बलावन	29-दिसं-2023	22—जन:—2024	रु. 10,85,220/- (रुपये दस लाख पिचासी हजार दो सौ बीस मात्र) 06-जन2024 के अनुसार

प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) का विवरण : संपत्ति प्लॉट नंबर 77 के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका आकार 20 X 45 = 900 वर्ग फट अर्थात 83.64 वर्ग मीटर है, जो खसरा नंबर 75/2, 76 पर, ग्राम मालीखेडी पटवारी हलका नं. 21 में नगर निगम सीमाओं के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 72 तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश-462044 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है पूर्व :— प्लॉट नं. 01 व 02, पश्चिम :— प्लॉट नं. 76, उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : सड़क।

उक्त ऋणकर्ता(ओ), सह—ऋणकर्ता(ओ) एवं गारंटर(रों) को सरकॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के अंतर्गत एमएचएफसीएल की पूर्व सहमति के बिना सुधना संदर्भित उपर्यक्त प्रतिभत परिसंपत्ति(यों) को विक्रय, पटटा के मध्यम से अथवा अन्यथा इस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 10 फरवरी 2024

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड धारा 13(2) के अधीन o2, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, कम सं. 79/1, घोरपड़ी, मुधवा रोड, पुणे-41103

आप निम्नलिखित कर्जदारों/सह–कर्जदारों/जमानतियों ने **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पहले पृनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 1: नवंबर 2023 से पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** हो गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाग से जाना जाता था और मल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके पश्चात 'प्रतिभत लेनवा तन्दर्भित) से अपनी अचल सम्पत्ति/यों को गिरवी रखकर गृह ऋण/सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण प्राप्त किया। आपने इसके पुनर्भुगतान में चूक की है और इसलिए आपका ऋण गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यकाया देनदारी की वसूली हेतु वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त-अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन एक माँग सूचना आपके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयी किन्तु वह अनसर्व्ड वापस कर दी गयी। अतः उसकी विषय–सामग्रं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित नियम 3(1) की धारा 13(2) के अनुसार वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रकाशित की जा रही है।

र्क्नादारों, सह-कर्जदारों, गारेंटरों, प्रतिभृतियों, बकाया देनदारियों, का विवरण धारा 13(2) के अधीन माँग सुचना भेजी गयी माँग सुचना तथा उसमें दावाकृत राशि का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.	कर्जदार, सह-कर्जदार, गारंटर का	प्रतिभूत आस्ति का विवस्ण	मांग सूचना की तिथि
सं.	नाम तथा ऋण राशि		बकाया ग्रशि रु. में
1.	सुरेन्द्र चौधरी, सुकमा बाई सुरेश, मंजू चौधरी सुरेन्द्र ऋण गीश : रु. 800000/- ऋण सं. : HF/0135/H/20/101293	पटवारी हल्का नंबर 2 का समस्त भाग, सर्वे नंबर 60, ग्राम-सोनवे, तहसील- मह्, जिला-इंदौर माप 1760 वर्ग फुट, पंचायत नियंत्रण पिन कोड-453331, सीमा:- पुर्व:- होरालाल जी का घर, पश्चिम:-सुभाष चौधरी का घर, उत्तर:-रास्ता 15 फीट, दक्षिण:-कैलाश जी की भूमि।	08/01/2024 रु. 856579.97 (रुपये आठ लाख खप्पन हजार पांच सौ उन्यासी और पैसे सत्तानये मात्र) पुनर्भुगतान तक 17.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित।
2.	महेश चौधरी, रेखा चौधरी ऋण राशि : रु. ७६०००/- ऋण सं. : HF/0135/H/21/100247	पटवारी हल्का नंबर 22 का समस्त भाग, खसरा नंबर 74, वार्ड नंबर 07, मकान नंबर 139, ग्राम- बीबीखेडी, तहसील- सांवेर, जिला-इंदीर माप 1024 वर्ग फुट, देवमहाराज मंदिर के पास, पिन कोड- 453551, सीमाएं: - पूर्व:- श्री दिनेश का चर, पश्चिम:- श्री राजेंद्र का घर, उत्तर:- सहक 12 फीट, दक्षिण:- श्री विष्णु का घर।	08/01/2024 रु. 808037.58 (रुपये आठ लाख आठ हजार सैतीस और पैसे अद्वाचन मात्र) पुनर्श्वगतान तक 18.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त व्याज सहित।
3.	चेन सिंह, श्यामू चेन सिंह ऋण गशि : रु. ७७, ७७००/- ऋण से. : HF/0180/H/19/100295	सर्वे नंबर ९९ पर प्लॉट/मकान नंबर २९ का समस्त भाग, पटवारी हल्का नंबर ४५ ग्राम चिंचोदिया, ग्राम पंचायत सुनेड़ा, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन माप 1400 वर्ग फीट, मॅदिर के पास पिन कोड- 456222 सीमाएं - पूर्व- इन्दर सिंह का प्लॉट, पश्चिम:- बसंतीलाल का घर, उत्तर:- रामचन्द्र का घर, दक्षिण:- सड़क।	08/01/2024 रु. 874385.42 (रुपये आठ लाख चौहत्तर हजार तीन सौ पचासी और पैसे बयालीस मात्र) पुनर्भुगतान तक 17% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त व्याज सहित।
4.	अज़ोक कुमार, रोहित, राधाबाई ऋण राशि : रु. 570000/- ऋण सं. : HF/0180/H/19/100308	सर्वे नंबर 201/2/2, वार्ड नंबर 54, गौरी नगर-ए, ग्राम पंड्याख्रेड़ी, उज्जैन के हिस्से पर प्लॉट नंबर ए-83 का समस्त भाग, माप 450.00 वर्ग फीट, दस्तावेजों के अनुसार सीमार्ए: - पूर्व - श्री अमृतलाल का प्लॉट, पश्चिम - प्लॉट नंबर 84- ए, उत्तर - सड़क, दक्षिण - श्री चंदन सिंह का खेत।	08/01/2024 रु. 438511.43 (रुपये चार लाख अड्तीस हजार पांच सौ स्यास्त और पैसे तैतालीस मात्र) पुनर्भुगतान तक 15.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरक्त व्याज सहित।
5.	कमल सिंह, सीता बाई ऋण राशि : रु. 600000/- ऋण सं. : ॡऋ°0180/ॡ/20/100101	सर्वे नंबर 844 पर मकान नंबर 32 का समस्त भाग, पटवारी हल्का नंबर 20, ग्राम पंचायत सिद्धिपुर निपानिया, तहसील तराना, जिला उज्जैन, माप 800 वर्ग फीट, वाटर हेंड टैंक पिन कोड – 456665, सीमाएं:- पूर्व:- सड़क 10 फीट, पश्चिम:- सड़क, उत्तर:- राजाजी का घर, दक्षिण:- करण सिंह का घर।	08/01/2024 रु. 617358.46 (रुपये छह लाख सनह हजार तीन सी अद्धावन और पैसे छियालीस मात्र) साथ में पुनर्भुनतान तक 17.5% प्रति वर्ष की दर से व्याज भी।
6.	अर्जुन गुर्जर, मोहन बाई अर्जुन ऋण गशि : रु. १०००००/-	सर्वे नंबर 912 पीएच नंबर 70 पर मकान नंबर 290 का समस्त भाग, गांव गुराड़िया गुर्जर, तहसील घाटिया, जिला उज्जैन, म.प्र. माप, 1260 वर्ग फीट, पिन	08/01/2024 रु. 944019.16 (रुपये नौ लाख चौवालीस हजार

उन्नीस और पैसे सोलह मात्र) पुनर्भुगतान तक कोड- 456550, सीमाएं:- पर्व:- प्रकाश का घर, पश्चिम:- रास्ता, उत्तर :-बद्रीलाल का घर, दक्षिण:- प्रहलाद का घर। 17.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित HF/0180/H/21/100374 क्रम नंबर 184 पीएच नंबर 111 म.नं. 39 गांव बरखेडा कायथा तहसील तरान गळ्यार सिंह राजपूत, टीना रु. 806881.8 (रुपये आठ लाख छह हजार आट सौ इक्यासी और अस्सी पैसे केवल) पुनर्भुगतान जिला उज्जैन 456664 माप 1600 वर्ग फुट, पिन कोड - 456665 का समस्त ऋण राशि : रु. ७६००००/-ऋण सं. : भाग, सीमाएं:- पूर्व:- घर भगवान सिंह, पश्चिम:- सड़क 20 फीट, उत्तर सड़क 20 फीट, दक्षिण:- नाला। तक 17.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज HF/0180/H/21/100773 सहित ।

करन, अनीता बाई करन, प्लॉट नं. 132 का समस्त भाग, क्रम सं. 863 का हिस्सा पीएच 105 गांव 08/01/2024 पीरझालर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन 456771 माप 1944 वर्ग फीट, पिन कोड- 456771 सीमाएं:- पूर्वः- नारायण का प्लॉट और अजब सिंह की जमीन, रु. 1186741.32 (रुपये ग्यारह लाख छियासी हजार सात सौ इकतालीस और पैसे बच्चीस मात्र) भारत बार्ड रामचन्द्र ऋण राशि : रु. 1120000/ पुनर्भुगतान तक 16.75% प्रति वर्ष की दर से पश्चिमः - सड़क 12 फीट, उत्तरः- गणपत लाल का घर, दक्षिणः- अमृतलाल का HF/0180/H/21/100800 अतिरिक्त ब्याज सहित। जितेन्द्र मुकेश, भारती यादव, ऋण राशि : रु. 600000/-खसरा नं. 263/1 पर मकान नंबर 170 का समस्त भाग, ग्राम पंचायत रजिस्ट ां. 29 गांव चंदेरी तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र., माप 1340 वर्ग फुट, पिन कोड-462030 सीमा:- पर्व:- कॉमन रोड. पश्चिम :- मंगल सिंह का घर. उत्तर: सौ चौवन और बाईस पैसे केवल) साथ में

मंगल सिंह का घर, दक्षिण:- जीतेन्द्र का बाड़ा। पुनर्भुगतान तक 15% प्रति वर्ष की दर से अतिरित्त HF/0197/H/21/100494 व्याज। आदित्य सिंह, सुनीता देवी, किरन देवी ऋण राशि : रु. 1600000/-ऋण सं. : घर माप क्षेत्रफल 752.4 वर्ग फीट का समस्त भाग, निगम मकान नंबर 103 वार्ड नंबर 33 सीताराम गन वाली गली गणेश पुरा, सीमाएं : पूर्व:- राजाराम पारासर 1603989.64 (रुपये सोलह लाख तीन हजार नौ सौ नवासी और पैसे चौसठ मात्र) पुनर्भुगतान तक 13.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज का घर पश्चिम:- सड़क, उत्तर:- रामस्वरूप शर्मा का घर दक्षिण:- मुन्ना खान HF/0224/H/19/100173 सहित् । अमृतलाल चौहान, उषा बाई चौहान ऋण गशि : रु. 600000/– मकान नंबर 12 पटवारी हल्का नंबर 07पुराना 15 नया खसरा नंब 435/1/1/1/2 ग्राम बंडसलाया बरूपगटक का समस्त भाग, माप:-702 वर्ग फुर, मल्टी रोड के पास पिन कोड-451660 सीमाएं:- पूर्व:- दिनेश अल्या का घर, पश्चिम:-कन्द्रैयालाल का प्लॉट, उत्तर:-सड़क 12 फीट, दक्षिण:-काशीराम नाथू रु. 662700.94 (रुपये छह लाख बासठ हजार सात सौ और पैसे चौरानवे मात्र) पुनर्भुगतान तक

HF/0229/H/20/100201 19% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित। की कृषि भूमि। कालु गोविन्द, माया बाई कालु खसरा नंबर 392 पीएच 17 मकान नंबर 128 का समस्त भाग, वार्ड नंबर 06 ग्राम पंचायत शिवना तहसील झिरन्या जिला खरगोन माप 880 वर्ग फीट, न्यू इंडिया हार्डवेयर पिन कोड – 451332 सीमाएं:- पूर्व:- सड़क 12 फीट, पश्चिम:-रु. 356802.77 (रुपए तीन लाख छप्पन हजार ऋण राशि : रु. ३१५०००/-तक 18.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज रामेश्वर का घर, उत्तर:- गुलाब सिंह के पुत्र रामेश्वर का घर, दक्षिण:- रूप सिंह HF/0229/H/20/100304

गजराज कडवा, पूजा गजराज ऋण राशि : रु. 550000/-मकान नंबर 72 वार्ड नंबर 06 खसरा नंबर 66 पटवारी हल्का 32 गांव सुलागांव तहसील बड़वाह जिला खरगोन मकान नंबर 72 वार्ड नंबर 06 खसरा नंबर 66 रु. 587676.66 (रुपये पांच लाख सत्तासी हजार छह सौ छिहत्तर और पैसे छियासठ मात्र) पटवारी हल्का 32 गांव सुलागांव तहसील बड़वाह जिला खरगोन माप 910 वर्ग पुनर्भुगतान तक 10.8% प्रति वर्ष की दर से HF/0229/H/21/100324 . का घर, पश्चिमः- गिरधारी की कृषि भूमि, उत्तरः- गिरधारी की कृषि भूमि, दक्षिण:- सड्क। मकान नंबर ९९ पीएच नंबर ६५ खसरा नंबर २२३ वार्ड नंबर ०४ ग्राम पलासी तहसील पिकनगाँव जिला खरगोन मकान नंबर ९९ पीएच नंबर ६५ खसरा नंबर इ. ३२०८४.२१ (रुपवे तीन लाख उनतीस हजार पवन प्रजापत, दुर्गा पवन ऋण राशि : रु. ३०००००/-223 वार्ड नंबर 04 ग्राम पलासी तहसील भिकनगांव जिला खरगोन माप 520 वर्ग चौरासी और पैसे उनतीस मात्र) साथ में . गेट, पिन कोड- 451331 का समस्त भाग, सीमाएं:- पूर्व:- स्व प्लॉट, पश्चिम:- पुनर्भुगतान तक 21% प्रति वर्ष की दर से अतिरित HF/0229/H/21/100351 राहल का घर. उत्तर:- रोड 12. दक्षिण:- हरिराम का घर।

सुरेश कुमार पाटीदार, शान्ति बाई ऋण राशि : रु. 2500000/-पुनर्भुगतान तक 14.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त च्याज। HF/0274/H/21/100181 का घर, दक्षिण:-शंकरलाल भगत पाटीदार का घर। बबल् सिंह, लक्ष्मी कुंदर मकान नंबर 27 वार्ड नंबर 02, पीएच नंबर 65 ग्राम-पिपलिया जोधा, तहसील मकार गर्बर 27 बाउ नवर 02, नाइन नवर 03 अन राजाराज जाना, जाना, मल्हारगढ़, जिला-मंदसौर का समस्त भाग, माप 632 वर्ग फीट, माता जी मंदिर के पास, पिन कोड-458556, सीमाएं:- पूर्व:- सड्क 8 फीट, पश्चिम:- सड़क ऋण राशि : रु. 495000/-रु. 521240.51 (रुपये पांच लाख इक्कीस हजार

दो सौ चालीस और इक्यावन पैसे मात्र) पुनर्भुगतान तक 16.75% प्रति वर्ष की दर से

अतिरिक्त ब्याज सहित ।

पटवारी हल्का नंबर 102 खसरा नंबर 177 मकान नंबर 245 गांव गुनावद तहसील बड़नगर जिला उज्जैन पटवारी हल्का नंबर 102 खसरा नंबर 177 मकान ऋण सं. : HF/0412/H/20/100448 ऋण राशि : रु. 12,65,000/-नंबर 245 गांव गुनावाद तहसील बाइनगर जिला उज्जैन का समस्त भाग, माप 784 वर्ग फीट, चारभुजा के पास मंदिर पिन कोड - 456771 सीमाएं:- पूर्व:-5. 709579,94 (रुपये सात लाख नी हजार पांच सौ सात सौ उन्यासी और चौरानबे पैसे मात्र) पुनर्भुगतान तक 17.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित। सं. HF/0412/H/20/100448 के मदन का घर, पश्चिम:- भारत का घर, उत्तर:- पीरू जी का घर, दक्षिण:- सड़क ऋण खाता सं. ऋग सं. : LAP0412200000005018225 LAP0412200000005018225 चे . 645765 (छह लाख पैंतालीस हजार सात सौ पैंसठ रुपये मात्र) पुनर्भुगतान तक 15% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित।

10 फीट, उत्तर:- सड़क 8 फीट, दक्षिण:- पारस जैन का घर।

HF/0274/H/21/100257

HF/0472/H/21/100506

ऋण गशि : रु. 500000/-ऋण सं. :

HF/0474/H/21/100064

शंकरलाल, काला बाई सर्वे नंबर 86 पर मकान नंबर 11 का समस्त भाग, पटवारी हल्का नंबर 03 गांव ऋण गशि : रु. 600000/-ऋण सं. : रु. 633846.82 (रुपये छह लाख तैंतीस हजार आठ सौ छियालीस और बयासी पैसे मात्र) फट, शहर-रतलाम, अंबा माता मंदिर के पास, मध्य प्रदेश-457336, सीमाएं HF/0415/H/21/100026 पुनर्शुगतान तुक 17.5% प्रति वर्ष की दर से पूर्व :- कच्ची सड़क 20 फीट, पश्चिम दिशा में:- सरकारी भूमि, उत्तर दिशा में:-अतिरिक्त ब्याज सहित । . शरथ जी का घर, दक्षिण दिशा में:- अम्बा माता मंदिर तेज सिंह यादव, मीना बाई पीएच नंबर 34 सरल 2249 खसरा नंबर 874/1 पक्की गांव भृतिया खुर्द तहसील रु. 1083828.85 (रुपए दस लाख तिरासी हजार आठ सौ अट्टाईस और पैसे पचासी मात्र) साथ में तेजिसिंह ऋण राशि : रु. 1000000/ सोनकच्छ जिला देवास पीएच नंबर 34 सरल 2249 खसरा नंबर 874/1 पक्की गांव भूतिया खुर्द तहसील सोनकच्छ जिला देवास का समस्त भाग, माप 2000 पुनर्भुगतान तक 19.75% प्रति वर्ष की दर से वर्ग फुट, सरकारी स्कूल पिन कोड - 455118, सीमाएं:- पूर्व:- सड़क, पश्चिम:-

मकान नंबर 81 पीएच पुराना 6 नया 35 खसरा नंबर 588 वार्ड नं. 09 गांव तालेनी तहसील पोलाय कला जिला शाजापुर माप 1350 वर्ग पुन्ट, पंचावत के पास, पिन कोड-465113, सीमाएं- पुर्व:- हिंदू सिंह का घर, पश्चिम:- दयाराम क 33.54 पित वर्ष की हत रहे से अतिरिक्त व्याज

संजय का घर, उत्तरः– सड़क, दक्षिणः– कमल का घर

जी का घर, उत्तर:- सड़क 10 फीट, दक्षिण:- अरविन्द जी का घर।

रमेश कुमार साह, लक्ष्मी रमेश कुमार आबादी खसरा नंबर 01, पटवारी हल्का नंबर 45, गांव घूघर तहसील जैसीनगर ज़िला सागर में प्लॉट का सम्पूर्ण भाग, क्षेत्रफलः -900 वर्ग फुट और प्लॉट की रु. 231342 (रुपये दो लाख इकतीस हजार तीन ऋण राशि : रु. 216000/ ऋण सं. : सीमाएं: – पूर्वः – नंदू लिक, पश्चिमः– राजकुमार का घर, उत्तर– दिनेश का घर दक्षिण- सड़क। सौरभ निगम, वन्दना जाटव ऋण राशि : रु. 600000/-ऋण सं. : प्लॉट नं. 56,तिरुपति प्लैटिनम ब्लॉक बी दौतखेड़ी इंदौर रोड उज्जैन माप 512 रु. 335272.99 (रुपये तीन लाख पैंतीस हजार दे वर्ग फुट, प्रेम रेजिडेंसी के पास पिन कोड-456006 का समस्त भाग, पुर्वः सौ बहत्तर और निन्यानबे पैसे मात्र) पुनर्भुगतान कॉलोनी रोड, पश्चिम:-प्लॉट नं. 77, उत्तर:- प्लॉट नंबर 55, दक्षिण:- प्लॉट नंबर तक 14.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज HM/0180/H/18/100207

सुरेन्द्र सिंह, कुशल सिंह, सरदार सिंह, हर कुंठार ऋण गशि : ह. 1150000/-मकान नंबर 96, सर्वे नंबर 272/3, पटवारी हल्का नंबर 55, ग्राम बिरमखेडी, तहसील चाटिया और जिला उज्जैन का समस्त भाग, माप 1536 वर्ग फीट, सरकारी जमीन स्कूल बीरमखेडी पिन कोड- 456550 सीमाएं-- पूर्व:- सरदार हजार तीन सी तिरसठ और ऐसे अठहत्तर मात्र) सिंह की भूमि, पश्चिम:- सड़क, उत्तर:- हरि सिंह की भूमि, दक्षिण:- मंगू सिंह की भूमि, पश्चिम:- सड़क, उत्तर:- हरि सिंह की भूमि, दक्षिण:- मंगू सिंह की भूमि, यात्र महित। उच्चान महित। HM/0180/H/18/100374 ब्याज सहित । अतः आप ऋणकर्ता/ओं तथा सह-ऋणकर्ता/ओं/जमानितयों को उपर्युक्त मौंग की गयी राशि एवं उपर्युक्त ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि को इस सुचना के 60 दिनों के भीतर जम करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभूति/यों के प्रयर्तन के लिए अधिनयमानुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। कृपय ध्यान दें कि कृथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप उपर्युक्त इंगित प्रतिभृतियों को विक्रय, पट्टे अथवा अन्य माध्यम से हमारी सहमति के बिना हस्तान्तरिर

स्थान : मध्य प्रदेश हस्ता./- अधिकृत ग्राधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनाव्याला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) PARVATI SWEETNERS AND POWER LIMITED

GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW

Reg. Off.: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal- 462003 (MP) Website: www.parvatisweetners.co.in, Email: info@parvatisweetners.com, Tel.: 0755-4009254 Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended on 31st Decen

(₹ in Lakhs) (Except EPS Year to date Figures | Corresponding Quarter ending for current period **PARTICULARS** 31th December ended 31st 31st December December, 2023 2023 Un-audited Un-audited Un-audited 4396.85 Total income from operations (net) 981.82 1080.26 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ 22.27 41.74 334.67 or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional 22.27 41.74 334.67 and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional 29.87 65.53 323.21 and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 29.87 65.53 323.21 Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 5 each) 7457.19 7457.19 4509.00 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance sheet of previous year) Earnings Per Share (of Rs.5/- each) (for continuing and discontinued operations)-1. Basic: 0.02 0.04 0.36 2. Diluted: 0.02 0.04 0.36

Note: The above is an extract of the detailed Format of Quarterly/Nine monthly Financial Results for the guarter/nine months ended 31st December, 2023 filed with Stock Exchange under Reg. 33 of SEBI (LODR) Regulations 2015. The Full Format of Quarterly Financial Results are available on the BSE website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.parvatisweetners.co.in). On and behalf of Board

Place: Bhopal Date: 9th February, 2024 POONAM CHOUKSEY (Managing Director), DIN: 02110270

T

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 49 जोन II, निकट सत्याविलास होटल, एम.पी. नगर, भोपाल-462016

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनिर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार तथा/सह-कर्जदार, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को एतद्वारा सुचना दी जाती है वि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के अधिक प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार तथा सह-कर्जदारों से बकाया देयताओं की वसूली हेतु ''जहाँ है जैसे हैं', ''जो है जैसे हैं तथा ''जो भी है वहीं है'' के आधार पर 28.02.2024 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मृत्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। एतद्वारा सुचना व जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन∕ असततता की अनुपस्थित में, कथित सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 28.02.2024 को 2 बजे अप. की जाएगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित मुहरबंद लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास 27.02.2024 को 5.00 बजे अप. तक शाखा पता : शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 49 जोन II, निकट सत्याविलास होटल, एम.पी. नगर, भोपाल-462016

प्रतिभूत आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री ''**जहाँ है जैसे है स्थिति''** में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी मांग सचना के अनसार राणि

_						
क्र. सं.	ऋण खाता सं. तथा शाखा	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार (रों)/विधिक उत्तराधिकारी (यों)/विधिक प्रतिनिधियों /जमानती(यों) के नाम		आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	कब्जे का प्रकार
1.	TCHH L0280 00010 00930 43 & TCHI N0280 00010 00946 97	श्री भारत कटारिया, श्रीमती पुष्पा कटारिया	रु. 945851/- (रुपये नौ लाख पँतालीस हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता सं. TCHHL0280000100093043 के तहत देय एवं बकाया है तथा राशि रु. 35972/- (रुपये पँतीस हजार नौ सौ बहत्तर मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता सं. TCHIN0280000100094697 के तहत देय एवं बकाया है कुल रु. 981823/- (रुपये नौ लाख इक्यासी हजार आठ सौ तेईस मात्र)	5,00,000 /- (रुपये पांच लाख मात्र)	रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति प्लॉट फ्लैट नंबर 01, पहली मंजिल के सभी अधिकार एवं हिस्से, मेट्रो हाइट्स अपार्टमेंट, प्लॉट नंब 189, सर्वे नं. 14, 8/1 ग्राम खजूरी कलां, गोपाल हाउसिंग को–ऑपरेटिव सोसाइटी एमवाईडीटी, तहसील हुजूर जिला भोपाल, म.प्र., 462023 मे स्थित, क्षेत्रफल -500 वर्गफुट, सीमाएं:- पूर्व :- फ्लैट नं. एफ-02 और एफ-03 पश्चिम :- 25' चौड़ी सड़क उत्तर :- प्लॉट नं. 190 दक्षिण : प्लॉट नं.188

2. 9760- 95 & 9762: 35	तडगे, श्री ओम शंकर	रु. 992284/- (रुपये नौ लाख बानवे हजार दो सौ चौरासी मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता सं. 9760495 के तहत देय एवं बकाया है तथा राशि रु. 180859/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार आठ सौ उनसठ मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता सं. 9762335 के तहत देय एने बकाया है, कुल रु. 1173143/- (रुपये ग्वारह लाख विहतर हजार एक सौ तैंगलीस मात्र)	7,50,000/- (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)	रु. 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)	भौतिक
---------------------------------	-----------------------	--	---	---	-------

अचल संपत्ति का विवरण: फ्लैट नं, 402. प्लॉट नं,-8. स्वास्तिक अपार्टमेंट, कस्टम कॉलोनी, कोलार, भोपाल, म.प्र., 462042 का सभी अधिकार समस्त भाग, माप - 509 वर्ग फीट। सीमाएं: -पूर्व :- फ्लैट संख्या 401 पश्चिम :- फ्लैट संख्या 403 उत्तर :- प्लॉट संख्या 07 दक्षिण - कॉलोनी रोड

3.	756	श्रामता नहा श्री राहल बु		रु. 2135498/- (र लाख पँतीस हजा अट्ठानबे म 12-01-20	र चार सौ गात्र)	(रुपये र	0,000/- इस लाख जार मात्र)	रु. 1,08, (रुपये एव आठ हजा	ह लाख	भारत	•
शास्त्र	ममानि	का हिल्ला	. ਜੜੈਕ ਜੰ	२०१ व्हा समास्य भाग ।	क्रिय पाए ०२ १०	र्वामीय	शस्त्राह्य मी	ीज विक्टिंग र	ਵੀ ਟਰਹੀ ਜੰ	चित्र गा	2ft

ओ भोपाल के विक्रय विलेख संख्या 1180 की अनुसूची में वर्णित है) सीमाएं : उत्तरः फ्लैट संख्या 202, पूर्वः सड़क, दक्षिण : कॉलोनी पैसेज, पश्चिम : फ्लैट नंबर 204

4.	9401 720	श्रीमती नेहा देवी नेमा, श्री राहल कुमार नेमा	रु. 2122766/- (रुपये इक्कीस लाख बाईस हजार सात सौ छिवासठ मात्र) 14-01-2016	रु. 9,00,000/- (रुपये नौ लाख मात्र)	रु. 90,000/- (रुपये नब्बे हजार मात्र)	भौतिक					

।चल सम्पत्ति का विवारण : फ्लैट क्षेत्रफल माप 63.85 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण भाग, चौथी मॉजिल, फ्लैट नं. 404, बिल्डिंग अल्पाइन ग्रीनेजऔर उस पर अन्य सुधार शामिल, एसवाई. नंबर 529/1, 530/2 जेनहुखेड़ा तहसील, हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश में (एस आर ओ भोपाल की बिक्री विलेख संख्या 1180 की अनुसूची में अधिक वर्णित है। 5 1054 劉 लिल गुज नेक (कर्जदार) ま 40.68.231/- ま 30.90.000/- ま 3.09.000/-

		0206	श्रीमती रजनी शाक्य (सह-कर्जदार)	रः. 40,88,2317 04-दिस2019	(रुपये तीस लाख नब्बे हजार मात्र)	(रुपये तीन लाख नौ हजार मात्र)	વાતવ				
अचल संपत्ति का विवरणा कथित अचल संपत्ति का समस्त भाग गाम दामोदर बाग परगना एवं जिला खालियर में राजस्व सर्वेक्षण संख्या 61/1											

मिन-1 नगर वार्ड नं. 4 और वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्ड संख्या 5, संपत्ति आईडी 1483201903247620 प्लॉट एरिया 278.81 वर्ग मीटर जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

निम्नानुसार सीमा: - पूर्वः विक्रेता की संपत्ति, पश्चिमः विक्रेता की संपत्ति, उत्तरः सड़क, दक्षिणः विक्रेता की संपत्ति। टिप्पणी; - टीसीएचएफएल (आरसीएस-ए/2300140/2014) के खिलाफ तीसरे पक्ष द्वारा दायर सिविल सृट सीजेएसडी ग्वालियर के समक्ष लंबिर है, उक्त मामले में टीसीएचएफएल के खिलाफ कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है

बोलीदाताओं को बोली जमा करने से पहले उचित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। नीलामी मुकदमेबाजी के नतीजे के अधीन होगी। नीलामी में, जनसामान्य को व्यक्तिगत रूप से अपनी संविदा(एं) जमा करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) व एतद्वारा इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित कुल बकाया अदा करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है जिसमें असफल रहने

. ार अचल सम्पत्ति की बिक्री अनुसूची के अनुसार की जायेगी। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रतिभृत ऋण, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी की तिथि से पूर्व जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह ई-नीलामी रोक दी जाएगी। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे

बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी :

यह ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://DisposalHub.com के माध्यम से 2s.o2.2o24 को 2.00 बजे अप से 3.00 बजे अप के बीच आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्ते : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तं ातिभूत लेनदार के विवेकानुसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी . बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (**रुपये दस हजार मात्र**) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि श्राखा पता में देय ''<mark>टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.</mark>'' के पश्च में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए कपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविद के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बन्नर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मुल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मुल्य स्पष्ट रूप से इतन अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। ६. दर्ज कारणों से, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। ७. सम्पत्ति का निरीक्षण 21.02.2024 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि श्रामिल है, का पच्चीस प्रतिश्रत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा पुनः नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता हारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 1**5वें** दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे **15वें** दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात किसी भी ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है: उपरोक्त तालिका के अनुसार। इच्छूव बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति कर. बिजली आदि के वैधानिक देनदारियों सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र पछतात्र करें। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यशन प्राइवेट लिमिटेड, पता #203, दूसरी मंजिल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर 4 एवं 5. क्रॉसिंग रेलवे रोड. गरुग्राम-122 006 से इसके मोबाइल नं. +91 97100 29933, +91 98100 29926, दूरभाष नं. +91 124 4 233 933, ई-मेल आईडी : CSD@disposalhub.com अथवा मनीष बंसल से ई-मेल आईडी : Manish.Bansal@tatacapital.com. अधिकृत प्राधिकारी तथा मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी मूछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : 9999078669 पर करें। 13. उच्चतम संविदाकार को उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस प्रयोज्य एवं देय होगा। वह भुगतान उच्चतम संविदाकार द्वारा स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन में जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। उपर्युक्त विवरण के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट http://surl.li/qekhs में प्रावधानित लिंक देखें। 15. कृपया लिंक

https://www.tatacapital.com/property-disposal.html भी देखें। **कृपया ध्यान दें** – टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुत्त

ाहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहि। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड